



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

30 अग्रहायण 1939 (श10)  
(सं० पटना 1201) पटना, वृहस्पतिवार, 21 दिसम्बर 2017

---

सं० अ०स०क० -08-15/2010 (खंड)1-390  
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

#### संकल्प

19 दिसम्बर 2017

**विषय:-** राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु संचालित योजना के तहत प्रति परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला को दी जाने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 से रू० 10,000/- (दस हजार रुपये) से बढ़ाकर रू० 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) मात्र करने एवं संबंधित मार्गनिर्देशिका की स्वीकृति के संबंध में ।

1. राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता /तलाक शुदा महिलाओं को आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्म निर्भर बनाने हेतु यह योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से संचालित है । इस योजना के तहत प्रत्येक परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला को एक मुश्त रू० 10,000/-( दस हजार रुपये) मात्र की सहायता राशि प्रदान की जाती है । प्रावधानित उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2006-07 से अपरिवर्तित रही है । समय के साथ मंहगाई बढ़ जाने के कारण प्रावधानित राशि में बदलाव की आवश्यकता है ताकि योजना के उद्देश्य की पूर्ति समुचित रूप से हो सके ।
2. अतः राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु संचालित योजना के तहत प्रति परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला को दी जाने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 से रू० 10,000/- (दस हजार रुपये) से बढ़ाकर रू० 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) मात्र करने एवं संबंधित मार्गनिर्देशिका की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
3. उक्त प्रस्ताव तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के सर्वसाधारण को सूचना के लिए प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी विभागों / विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट,  
सरकार के विशेष सचिव-सह-निदेशक ।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,  
बिहार गजट (असाधारण) 1201-571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>